

कालियां में 60 हजार के नकली नोट सहित 2 पकड़े

Hanumangarh News - आरोपियों में एक पीलीबंगा निवासी, सभी नोट एक नंबर के
भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर गांव कालियां में नकली...

[Hindi News](#) | [Rajasthan](#) | [Hanumangarh](#)
Hanumangarh News rajasthan news 2 in cash with 60000 fake notes
Apr 14, 2019, 08:10 AM IST



आरोपियों में एक पीलीबंगा निवासी, सभी नोट एक नंबर के

भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर

गांव कालियां में नकली नोट बनाए जाने का भंडाफोड़ हुआ है। शनिवार दोपहर को सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने इस गांव में केवलसिंह के घर पर छापा मारा, जहां से उसके घर से 60 हजार 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पांच-पांच सौ के यह नोट एक ही नंबर के हैं।

नकली नोट बनाने के लिए कलर प्रिंटर और पेपर कटिंग मशीन भी मिली है। केवलसिंह (30) पुत्र बलदेव सिंह जट सिख को हिरासत में लिया गया है। उसके साथ नकली नोट बनाने-चलाने में लिप्त होने के आरोप में परमजीत सिंह (23) पुत्र खुमन सिंह रायसिख निवासी खरलियां, थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को हिरासत में लिया गया है।

सदर थाना की कार्यवाहक प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस हितिका वासल की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में एएसआई भूपसिंह, हवलदार हरजिन्द्र सिंह, सिपाही राधेश्याम, कैलाशचंद्र और किन्द्रपाल कौर शामिल रहे। वासल ने बताया कि कुछ दिनों से गुप्त रूप से सूचनाएं मिल रही थीं कि इस गांव में पांच-पांच सौ के नकली नोट चलाए जा रहे हैं। इस पर खुफिया रूप से नजर रखी गई। सूत्रों से ही पुख्ता सूचना मिलने पर केवलसिंह के घर पर दबिश दी गई। उन्होंने बताया कि दोनों से कड़ी पूछताछ चल रही है।

पुलिस ने बताया कि केवलसिंह संपन्न किसान था। उसके पास 40 बीघा जमीन थी, लेकिन उसे नशे की लत लग गई। इसी के चलते उसकी जमीन बिक गई। वह एक-दो बार नशीले पदार्थों सहित पकड़ा गया था। उस पर एनडीपीएस एक्ट के मामले चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार जब जमीन बिक गई और नशे की पूर्ति के लिए केवलसिंह के पास पैसा नहीं रहा तो उसने अपने घर पर ही नकली नोट बनाने शुरू कर दिए। वह कलर प्रिंटर-फोटो स्टेट ले आया। बढ़िया किस्म के कागज पर वह पांच-पांच सौ के नोटों की कॉपी करने लगा। कटिंग मशीन से नोटों को बड़ी सफाई से काटकर तैयार करने लगा। पिछले कई दिनों से वह नकली नोटों को चला रहा था। नोट चलाने के लिए उसने परमजीत सिंह को अपने साथ मिला लिया।

Source: https://www.bhaskar.com/rajasthan/hanumangarh/news/rajasthan-news-2-in-cash-with-60000-fake-notes-081013-4342989.html?utm_expid=.29nQni_6QRCenICdpR2Fpg.0&utm_referrer=